



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 17, 1983/फाल्गुन 26, 1904
No. 19] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 1983/PHALGUNA 26, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग
अधीनस्थताएं

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1983

अ.अ. 36(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 17 मार्च, 1983 की अधिसूचना सं. 100/रा.स.-बिहार/1/83 (1) के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की उसके कर्तव्यों के पालन में सहायता करने के लिए संयुक्त सचिव, बिहार राज्य विधान सभा को नियुक्त करता है।

[100/रा. स.-बिहार/1/83 (5)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th March, 1983

O.N. 36(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Joint Secretary, Bihar State Legislative Assembly to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-BR/1/83 (1) dated the 17th March, 1983, in the performance of his functions.

[No. 100/CS-BR/1/83(5)]

1471 GI/82

अ. अ. 37(अ) :—राज्य सभा के लिए बिहार से निर्वाचित सदस्य श्री ए. पी. शर्मा के उनके पदावधि के अवसान से पूर्व त्याग-पत्र दे दिए जाने के कारण राज्य सभा में एक रिक्ति हो गई है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, तारीख 11 अप्रैल, 1983 से पूर्व एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं. 100/रा. स.-बिहार/1/83 (1)]

O.N. 37(E).—Whereas a vacancy has occurred in the Council of States due to resignation of Shri A. P. Sharma, a member elected to the Council of States from Bihar before the expiration of his term of office ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Bihar to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 11th April, 1983.

[No. 100/CS-BR/1/83(1)]

(1)

आ. अ. 38(अ) :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 17 मार्च, 1983 की अधिसूचना सं. 100/रा.स.-बिहार/1/83 (1) के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के तारे में :—

- (क) नाम-निर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख, 24 मार्च, 1983 (बृहस्पतिवार) ;
- (ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख, 25 मार्च, 1983 (शुक्रवार) ;
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस करने की अन्तिम तारीख, 31 मार्च, 1983 (बृहस्पतिवार) ;
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, तथा 8 अप्रैल, 1983 (शुक्रवार) ;
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा, 11 अप्रैल, 1983 (सोमवार) ।

नियत करता है ।

[सं. 100/रा. स.-बिहार/1/83 (2)]

O.N. 38(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-BR/1/83 (1), dated the 17th March, 1983 :—

- (a) 24th March, 1983 (Thursday), as the last date for making nominations ;
- (b) 25th March, 1983 (Friday), as the date for the scrutiny of nominations ;
- (c) 31st March, 1983 (Thursday), as the last date for withdrawal of candidatures ;
- (d) 8th April, 1983 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken ; and
- (e) 11th April, 1983 (Monday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-BR/1/83 (2)]

आ. अ. 39(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 17 मार्च, 1983 की अधिसूचना सं. 100/रा.स.-बिहार/1/83 (1) के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 11.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान होगा ।

[सं. 100/रा. स.-बिहार/1/83 (3)]

O.N. 39(E).—In exercise of the powers conferred by section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 11.00 a.m. to 3.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-BR/1/83 (1), dated the 17th March, 1983.

[No. 100/CS-BR/1/83 (3)]

आ. अ. 40(अ) :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, बिहार सरकार के परामर्श से, अपनी अधिसूचना सं. 100/रा.स.-बिहार/1/83 (1), तारीख 17 मार्च, 1983 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए सचिव, बिहार विधान सभा को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है ।

[सं. 100/रा. स.-बिहार/1/83 (4)]

आदेश से,

के. गणेशन, सचिव
भारत निर्वाचन आयोग ।

O.N. 40(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Bihar, hereby designates Secretary, Bihar Legislative Assembly to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-BR/1/83 (1), dated the 17th March, 1983.

[No. 100/CS-BR/1/83 (4)]

By Order,

K. GANESAN, Secy.
Election Commission of India